

No. of Printed Pages : 4

**OVA-002**

**CERTIFICATE IN PERFORMING  
ARTS/CERTIFICATE IN VISUAL ARTS  
(HINDUSTANI MUSIC/KARNATAK  
MUSIC/THEATRE ARTS/  
BHARATNATYAM/KATHAK/  
PAINTING/APPLIED ARTS/  
SCULPTURE)  
(CPAHM/CPAKM/CPATHA/CPABN/  
CPAKT/CVAP/CVAA/CVAS)**

**Term-End Examination**

**December, 2023**

**OVA-002 : UNDERSTANDING INDIAN ART FORMS**

*Time : 2  $\frac{1}{2}$  Hours*

*Maximum Marks : 70*

---

**Note :** *Attempt any **seven** questions. Each question carries 10 marks.*

---

---

1. 'Rock Art depicts stone age.' Explain it.
2. Mention about six limbs in the art of painting.
3. Write about the basic elements of music and their importance.

**P. T. O.**

4. Throw light upon the techniques of sculpture.
5. Write down the chief characteristics of Folk theatre.
6. Describe ancient techniques of dance.
7. Why is a live performance more thrilling than a recorded one ? Explain in brief.
8. Write about importance of aesthetics in Visual Arts.
9. Write short notes on any *two* of the following :
  - (a) Greek Architecture
  - (b) Islamic Architecture
  - (c) Naad and its types

**OVA-002**

कला प्रदर्शन में प्रमाण-पत्र/दृश्य कला में प्रमाण-पत्र

( हिन्दुस्तानी संगीत/कर्नाटक संगीत/नाट्य कला/

भरतनाट्यम्/कथक/चित्रकला/व्यावहारिक

कला/मूर्तिकला )

( सी.पी.ए.एच.एम./सी.पी.ए.के.एम./सी.पी.ए.टी.एच.ए./

सी.पी.ए.बी.एन./सी.पी.ए.के.टी./सी.वी.ए.पी./

सी.वी.ए.ए./सी.वी.ए.एस. )

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

ओ.वी.ए.-002 : भारतीय कला स्वरूपों की समझ

समय : 2½ घण्ट

अधिकतम अंक : 70

नोट : कोई सात प्रश्न कीजिये। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. 'रॉक कला पाषाण युग का प्रतीक है।' व्याख्या कीजिए।
2. चित्रकला के छः अंगों को वर्णित कीजिए।
3. संगीत के मूलभूत तत्वों एवं उनकी महत्ता के विषय में लिखिए।

4. मूर्तिकला की तकनीकों पर प्रकाश डालिए।
5. लोक रंगमंच की प्रमुख विशेषताएँ वर्णित कीजिए।
6. नृत्य की प्राचीन तकनीक को वर्णित कीजिए।
7. 'एक जीवंत प्रस्तुति का रिकार्डेड प्रस्तुति की अपेक्षा अधिक रोमांचकारी अनुभव है।' चर्चा कीजिए।
8. प्रदर्शन कला में सौन्दर्यशास्त्र के महत्व के विषय में लिखिए।
9. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए :
  - (अ) ग्रीक स्थापत्य कला
  - (ब) इस्लामिक स्थापत्य कला
  - (स) नाद व इसके प्रकार